

कुतुबन कृत मृगावती

डा० शिवगोपाल मिश्र

२४०



हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग